

प्रेस विज्ञप्ति

लंदन बेस्ड टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2023 में जामिया की रैंक इम्पूव

जामिया मिल्लिया इस्लामिया NAAC द्वारा A⁺⁺ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, भारत के शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जिसने लंदन बेस्ड टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2023 में अपनी रैंकिंग इम्पूव की है। वैश्विक स्तर पर जामिया इस साल 501-600 रैंकिंग बैंड पर पहुंच गया, जो पिछले साल 601-800 पर था। प्रतिष्ठित THE- 2023 द्वारा रैंक किए गए सभी संस्थानों में जामिया भारत में छठे स्थान पर है, जबकि पिछले साल यह 7 वें स्थान पर था।

जामिया की कुलपति प्रो नजमा अख्तर ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में विश्वविद्यालय के लगातार सुधार पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, "यह प्रदर्शन उच्च गुणवत्ता अनुसंधान, प्रकाशन और शिक्षण पर प्रोत्साहन के अलावा जामिया की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति और पहुंच को दर्शाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय अपने प्रदर्शन में और सुधार करेगा और आने वाले वर्षों में इसकी रैंकिंग और बेहतर होगी।

कुलपति ने सभी सहयोगियों और कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद दिया और अपील की कि वे आने वाले वर्षों में रैंकिंग में और सुधार करने के लिए अपने प्रयास जारी रखें।

वेबसाइट के अनुसार, 104 देशों और क्षेत्रों में कुल 1799 संस्थानों का मूल्यांकन THE-2023 के लिए किया गया था, जो इसे अब तक की सबसे बड़ी और सबसे विविध विश्वविद्यालय रैंकिंग बनाता है। टेबल 13 केयरफुली कैलिब्रेटेड परफोर्मेंस इंडिकेटर्स पर आधारित है जो चार क्षेत्रों में एक संस्थान के प्रदर्शन को मापते हैं: शिक्षण, अनुसंधान, नोलेज ट्रांसफर और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण।

इससे पहले इस साल जुलाई में जामिया ने शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)-2022 रैंकिंग में सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में तीसरा स्थान हासिल किया था। जामिया ने एनआईआरएफ में पिछले साल की छठी पोजीशन से अपनी स्थिति में काफी सुधार किया है।

इस साल सितंबर में लंदन स्थित क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग एजेंसी द्वारा जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग- 2022 में जामिया को 186वें स्थान पर रखा गया था, जो पिछले साल 203 पोजीशन पर रहा था। अब तक की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग -2022, में 687 शीर्ष एशियाई विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।

इस साल सितंबर में क्लेरिवेट एनालिटिक्स, मॉस्को द्वारा जारी आरयूआर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2022 में जामिया दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में भी शामिल है।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया